

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, 2021 के प्रोविंसियल बजट में नए अस्पताल विस्तार और नए पोस्ट सेकंडरी हेल्थ केयर संबंधी अवसर सुरक्षित किए

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 मार्च, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, प्रोविंसियल सरकार की आज के बजट संबंधी घोषणा का स्वागत करती है, जिसमें सरकार ने विलियम ओसलर हेल्थ सिस्टम (William Osler Health System) के पील मेमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) में नए विंग के विस्तार के लिए फंडिंग और रायरसन यूनिवर्सिटी (Ryerson University) के साथ साझेदारी में ब्रैम्पटन में, मेडिकल एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूट के विकास के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

पील मेमोरियल अस्पताल का विस्तार

प्रांत का बजट, विलियम ओसलर हेल्थ सिस्टम के पील मेमोरियल में नया इनपेशेंट विंग बनाने में सहायता करेगा। पील फेज 2 (Peel Phase II) का पुनर्निर्माण, ब्रैम्पटन सिविक अस्पताल (Brampton Civic Hospital) में एक्यूट केयर सेवाओं को बढ़ाने में ओसलर की मदद करेगा, जिसके पूरा होने पर 90-100 मेडिसन बेड्स के लिए कैपेसिटी बढ़ेगी।

ओसलर के प्रस्ताव में, पील मेमोरियल में अर्जेंट केयर सेंटर (Urgent Care Centre) को 24/7 ऑपरेशंस में बढ़ाने की मंजूरी का अनुरोध किया गया है, जो कम्युनिटी के लिए कैपेसिटी में वृद्धि करेंगे। इसमें, अर्जेंट केयर सेंटर को एमरजेंसी डिपार्टमेंट (Emergency Department) के तौर पर दुबारा नाम देना भी शामिल है। इसे भी पील फेज 2 पूरे होने से पहले ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

22 जनवरी, 2020 को, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने हेल्थ केयर एमरजेंसी का ऐलान किया था और अपना हिमायती अभियान, “फेयर डील फॉर ब्रैम्पटन” (“Fair Deal for Brampton”) भी शुरू किया था – इसमें पील मेमोरियल का फेज 2 (24/7 एमरजेंसी डिपार्टमेंट और अतिरिक्त बेड) और ब्रैम्पटन में तीसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी पूरी करने सहित; ब्रैम्पटन के हेल्थ केयर अंतराल को दूर करने के लिए प्रांत से अतिरिक्त फंडिंग का अनुरोध किया गया था।

पोस्ट सेकंडरी एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग संबंधी अवसर

सिटी, रायरसन यूनिवर्सिटी (Ryerson University) में मेडिकल इंस्टीट्यूट सहित, और पोस्ट सेकंडरी अवसरों में वृद्धि का स्वागत करती है। यह घोषणा और पील मेमोरियल का विस्तार, ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर एमरजेंसी पर ध्यान देने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करेगा कि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की अगली पीढ़ी को लोकल तौर पर शहर में ही ट्रेनिंग मिल पाए।

आज की प्रोविंसियल घोषणा, ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी (Brampton University) बनाने और ब्रैम्पटन में पूरी यूनिवर्सिटी लाने के बारे में सिटी काउंसिल (City Council) के लक्ष्य को और अब तक पूरे किए काम की पूर्ति करती है।

नया स्कूल और चाइल्ड केयर संबंधी स्थान

प्रोविंसियल बजट, ब्रैम्पटन में एक नया अंग्रेज़ी एलिमेंटरी स्कूल भी प्रदान करता है, जहां 850 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे। यह 73 लाइसेंसड चाइल्ड केयर संबंधी स्थानों वाले एक चाइल्ड केयर सेंटर को भी शामिल करता है।

बजट एडवोकेसी

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने मुख्य प्राथमिकताओं के लिए हिमायत करते हुए, फरवरी में प्रांत को औपचारिक 2021 बजट प्रस्तुतियां पेश की थीं, जिनमें शामिल हैं: हेल्थ केयर, ट्रांज़िट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट सेकंडरी एजुकेशन संबंधी अवसर।

आज के बजट से पहले, सिटी ने कोविड-19 (COVID-19) महामारी के आर्थिक प्रभावों पर ध्यान देने के लिए, म्युनिसिपल ट्रांज़िट सिस्टमों की सहायता के लिए 15 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा का स्वागत किया था। 2021 के अंत तक सेफ रीस्टार्ट एग्रीमेंट (Safe Restart Agreement) के द्वारा बढ़ाई गई फंडिंग एक सकारात्मक विकास है और ब्रैम्पटन ने सिटी के 2021 की बजट प्रस्तुति के द्वारा इसके लिए हिमायत की थी। सिटी को जारी कोविड-19 संबंधी संचालन खर्चों को पूरा करने के लिए म्युनिसिपल्टीज की मदद के लिए, 500 मिलियन डॉलर की घोषणा के हिस्से के तौर पर 14.6 मिलियन डॉलर भी प्राप्त हुए थे।

हवाले

“हमारे प्रोविंसियल साझेदारों से फंडिंग, कोविड-19 महामारी से ब्रैम्पटन की बहाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम पील मेमोरियल के फेज 2 के द्वारा ब्रैम्पटन में, दूसरे अस्पताल की घोषणा के लिए और डाउनटाउन ब्रैम्पटन में मेडिकल एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूट के विकास के लिए शुक्रगुजार हैं। कोविड-19 महामारी ने समय पर और उचित हेल्थ केयर फंडिंग की, ब्रैम्पटन की बेहद महत्वपूर्ण जरूरत को और बढ़ा दिया है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कैनेडा के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले और सबसे अधिक युवा आबादी वाले शहरों में से एक के तौर पर, हमारे युवाओं के लिए पोस्ट सेकंडरी अवसरों का विस्तार करना और हेल्थ केयर फंडिंग अंतराल पर ध्यान देना मुख्य प्राथमिकताएं हैं। सिटी के स्टाफ ने पील मेमोरियल के फेज 2 और नए मेडिकल स्कूल के द्वारा, अतिरिक्त पोस्ट सेकंडरी अवसरों की आज की घोषणा को सुरक्षित करने के लिए काउंसिल की हिमायत को सक्रिय तौर पर आगे बढ़ाया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए स्वास्थ्य और तंदरुस्ती और शिक्षा संबंधी अवसरों को कार्यान्वित किया जाता है।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह ओसलर के लिए और कम्युनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया समाचार है। हम ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर और अस्पताल विस्तार को प्राथमिकता देने के लिए, ओनटैरियो सरकार, लोकल निर्वाचित ऑफिशियल्स, कम्युनिटी मेम्बरों और अन्य सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। हमारी पील मेमोरियल साइट के विस्तार के लिए जारी प्लानिंग, हमें तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अस्पताल कैपेसिटी बनाने की ओर आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी। साथ ही यह, ओसलर के पील मेमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस में, पहले ही प्रदान की जा रही शानदार केयर की पूर्ति करेगी।”

- डॉ. नवीद मुहम्मद (Naveed Mohammad), प्रेजिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, विलियम ओसलर हेल्थ सिस्टम

“रायरसन, ओनटैरियो बजट में आज की घोषणा से बेहद खुश है, जो ब्रैम्पटन में मेडिकल एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूट के विकास और ब्रैम्पटन के लोकल हेल्थ केयर सिस्टम में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। हम, हमारी पोस्ट सेकंडरी पेशकशों को बढ़ाने और अगली पीढ़ी के लिए उच्च क्वालिटी के शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करने के लिए, सिटी के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं।”

- डॉ. मुहम्मद लाचेमी (Mohamed Lachemi), प्रेजिडेंट एंड वाइस-चांसलर, रायरसन यूनिवर्सिटी

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca